



कामगार राज्य बीमा महामंडळ  
(श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & employment, Govt. of India)



उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर / उप क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर  
SUB-REGIONAL OFFICE NAGPUR  
पंचदीप भवन, गणेशपेठ, नागपूर, महाराष्ट्र - 440018  
पंचदीप भवन, गणेशपेठ, नागपूर, महाराष्ट्र - 440018  
PANCHDEEP BHAWAN, GANESHPETH, NAGPUR, MAHARASHTRA - 440018  
☎: 2720141, 2726219, 2726365, 2729075, Fax: 0712-2729359  
E-mail: [dir-nagpur@esic.nic.in](mailto:dir-nagpur@esic.nic.in) Website : [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in)

No.23/ A-22014/9/2022-ESTTA-22014/9/2022-ESTT

Date: - 22-04-2025

**// कार्यालय आदेश संख्या / Office Order No. 64 //**

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निम्नानुसार स्थानांतरण/ तैनाती करने के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते हैं।

With the approval of the competent authority, the transfer/posting of officials are issued as follows with immediate effect:

| क्रम संख्या<br>Sr.<br>No. | कर्मचारी का नाम व पदनाम<br>Name<br>of the Official & Designation | वर्तमान तैनाती/<br>Current Place of posting  | आदेशित तैनाती /<br>Place of Posting  | Ordered |
|---------------------------|--|--|--|---------|
| 1.                        | Sh. Navin Meshram, Office Superintendent                         | Establishment Branch,<br>Vigilance Branch,<br>PG Cell, CAIU Branch,<br>Inspection Control Branch,<br>Coverage Branch,<br>Ins. I, II & III (BEC)<br>Finance & Accounts Branch | CAIU Branch,<br>Inspection Control Branch,<br>Coverage Branch,<br>Ins. I, II & III (BEC)<br>Finance & Accounts Branch  |         |
| 2.                        | Sh. Dhananjay Hedau, SSO   | General Branch,<br>PMD Branch,<br>RTI Cell, Official on Special Duty (Ensure the compliance of Biometric and other task assigned from time to time)                          | Establishment Branch, PG Cell,<br>Vigilance Branch General Branch, PMD Branch,<br>RTI Cell,<br>Official on Special Duty (Ensure the compliance of Biometric and other task assigned from time to time) |         |
| 3.                        | Sh. R.S. Raut, SSO   | SSO (Legal) & OS (Legal)   | CRI, SSO (Legal) & OS (Legal)  |         |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 4.  | Smt. Deepawali Behere, SSO                       | Benefit, Monitoring of Branch office Data/Claims Online Claims related matters of Branch Offices, Review of pending benefit cases. | Benefit & Co-ordination Branch, Inward/Dispatch section., IT Roll Out Cases, Complaint Cell, Canteen<br>Monitoring of Branch office Data/Claims Online Claims related matters of Branch Offices, Review of pending benefit cases. |
| 5.  | Smt. Jambeshwari Vaishnav, Office Superintendent | CRI (Cash, Inward/Dispatch) Branch, office implementation matters, Co-ordination, Complaint Cell, IT rollout, canteen              | Branch Manager, Branch Office Sadar & Pay office Kamptee.   |
| 6.  | Sh. Sanket Haste, SSO                            | SSO(Recovery)  | Inspection control Branch SRO Nagpur  |
| 7.  | Sh. Ganesh Gajbhiye, SSO                         | Official on Special Duty (Ensuring time bound review as per AOD report & update the status online)                                 | SSO(Recovery)   |
| 8.  | Sh. Niraj Sakharkar, SSO                         | SSO (Recovery)   | SSO(Recovery)   |
| 9.  | Sh. Vishwadip Dasode, SSO                        | O.S.(Recovery) SSO(Recovery)   | O.S.(Recovery) SSO(Recovery)  |
| 10. | Sh.Nitin Duryodhan SSO                           | SSO(Recovery)  | SSO(Recovery)   |

कर्मचारी की कार्यमुक्ती/ कार्यभार ग्रहण संबंधी रिपोर्ट सभी संबंधितों को भिजवाई जाए।

The report regarding joining should be sent to all concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

(हेमंत बरडे / Hemant

Barde)

सहा. निदेशक (प्रशा.)/Asst. Director

(Admn.) प्रति,

श्री /श्रीमती/कु.....

1. संबधित कर्मचारी
2. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय,.....।
3. रोकड/वित्त एवं लेखा शाखा, उ.क्षे.का.नागपुर।
4. वैयक्तिक फाईल/ कार्यालय आदेश फाईल।